



PIIL:SEC:NSE/BSE:48:2023-24
August 11, 2023

BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Code No.523642	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Code No. PIIND
---	--

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper advertisement for the Financial Results – June 30, 2023.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the Advertisement copies of the Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 published in the following newspapers:

- a. Financial Express (National daily newspaper) - All India English Edition on August 11, 2023
- b. Rajasthan Patrika, Newspaper- Hindi Edition, Udaipur on August 11, 2023.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **PI Industries Limited**

Sonal Tiwari
Company Secretary
Encl: As above.

Classifieds

PERSONAL

It is for general information that I, **ISELINA DILSHAD, D/O MOHAMMAD DILSHAD ANSARI**, residing at, 142, MAIN-MARKET, OKHLA, JAMIA-NAGAR, SOUTH-DELHI, DELHI-110025, declare that name of my father has been wrongly written as **DILSHAD ANSARI** in my-10th and 12th-Class Educational Documents. The actual name of my father is **MOHAMMAD DILSHAD ANSARI**, which may be amended accordingly.

0040682492-9

I, **Nimmi Bhasin W/O Pradeep Sahni R/O B-205 Vivek-Vihar Phase-I, Delhi-110095**, have changed my name to **Nimmi Sahni** permanently.

0040682492-8

I, **H S Paniraju, S/o H S Seetharamaiah, R/O #246, Kannapura, Mudigere, Chik kamgaluru, Karnataka-571732**, declare that **H S Paniraju, Phaniraj H S** and **Phaniraju H S** are one and the same person and the correct name is **H S Paniraju**.

0040682507-4

I, **Chetan s/o Ramesh Kumar, H.No.4/42, Subhash Nagar, Tagore Garden, New Delhi-110027**, have changed my name to **Chetan Arora**, permanently.

0040682492-7

I, **Siddhant Gupta s/o Vinod Kumar Gupta, father of Nirvan Gupta and husband of Nidhi S Gupta r/o plot no.31, 1st Floor, Meera Enclave, Chaukhandi, Delhi-110018** have changed my name to **Siddhant Gupta** permanently.

0040682383-1

I, **Bhupender Singh r/o B-12-A, Uday Vihar, Chander Vihar, Nilothi, Nangloi, Delhi-110041** declare that name of my father has been wrongly written as **DHARAM SINGH** in my various educational documents. Correct name of my father is **DHARAM SINGH**.

0040682384-1

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE
The General Public is informed at large, that Mrs. Karishma Arora alias Karishma Khatwani, who Mr. Aakash Arora, has made representations that she is the absolute owner of Entire Second Floor, without roof rights, with 1/2 share ownership of land underneath Built Up Property No. 310, Block-A-1, Jansakuri, New Delhi-110058, & has offered to mortgage the same with State Bank of India. That Original Allotment & Handing Over Possession in Favour of Sh. Amar Singh Ahluwalia S/O Late Sh. Ram Pratap, Persional Seal Dated in Favour of Sh. Amar Singh Ahluwalia S/O Late Sh. Ram Pratap Vide Regd. No. 2363 On Regd. Dated. 21.03.1970. GFA+SPA+Receipt Executed by Sh. Amar Singh Ahluwalia S/O Late Sh. Ram Pratap in Favour of Smt. Binia Pahuja W/O Sh. C.D. Pahuja On Dated. 06.09.1980. ATS+GFA+SPA in Favour of Sh. Marmohan Chopra S/o Sh. K.G. Chopra On Dated. 08.06.1981 & Will in Favour of Smt. Raatha Rani Chopra W/O K.G. Chopra On Dated. 08.06.1981. Original Conveyance Deed in Favour of Sh. Marmohan Chopra S/O Sh. K.G. Chopra Vide Regd.No. - 8116 On Regd. Dated. 27.10.1987 are untraceable for verification. If any person has any information about said documents or has objection with respect to the same or has any interest whatsoever in the said Property, may submit their objections before the undersigned vide E-Mail advmkeshjha315@gmail.com or vide telephone No-91-9652226154, with supporting documents within 15 days from the date of this publication.

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals appearing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE
My Clients namely Sh. Umesh Sharma, S/o Sh. Shashi Prakash Sharma & Smt. Poonam Sharma W/o Sh. Umesh Sharma, both are Resident of 1449K B, Main Road 100 Focra Road, Chandrak, Bus Stand, Durgapuri, North East, Delhi-110093, have debarred & disowned their son namely Sh. Piyush Kaushik, S/o Sh. Umesh Sharma & Daughter (name namely Ms. Hema W/o Sh. Piyush Kaushik) from their all moveable & immovable properties due to their misconduct & misdeeds which are affecting adversely to them at present. If any person deals with them, it must be at their own risk, cost and consequence. My above mentioned clients will not be responsible for any liability/misdeeds committed by them with any person in any manner.
Amyad Khan (Advocate)
Ch. No. 635, LCB, Saket Court, New Delhi-11

PUBLIC NOTICE
My client Ganga Ram S/o Late Chuni Lal R/O 23-A, 3rd Floor, Gali No.9, Molarband Extn., Badarpur, New Delhi-44 has debarred / disowned his daughter Priyanka Kumari from all moveable/ immovable properties and assets and severed all relations as she get married against my permission, my client shall not be responsible for any acts done by her in future.
ANSHUL GARG (Advocate)

PUBLIC NOTICE
BE IT KNOWN THAT MY Client Smt. Shanti W/o Late Tara Chand Gupta, H.No-D-101, Block-D, Krishna Park, Khanpur, Delhi-110062, has disown Debar her Grand Son namely Mr. Ashish Gupta S/o Rakesh Gupta from her property bearing MCD NO. A-41-A, Krishna Park, Khanpur, New Delhi-110062, and whereas my other Clients, Sh. Rakesh Gupta S/o Late Tara Chand Gupta and his Wife Smt. Anita Gupta has also disown Debar their son namely Mr. Ashish Gupta from all their Moveable-Immovable/Assets Properties. Any person dealing with aforesaid Mr. Ashish Gupta shall do so at their own risk and responsibility. My Clients shall not be responsible for any act and deed of debarred person.
SANCHIT GUPTA (ADVOCATE)

PUBLIC NOTICE
Be it known to all concerned that I, Mrs. Renu Sablania, aged about 65 years, resident of B-3/72, Sector - 11, ROHINI, Delhi - 110085, do hereby disown my son Sh. Nikhil Sablania for all purposes and I have no relation with him with regard to anything including financial, movable and immovable assets and social relations. If anyone has any objection he may write to my counsel Sh. Rakesh Dhirgma, M 9868 103582, E-mail: rakeshdhirgmaadvocate@gmail.com, Renu Sablania M-9582144768 CMA CS RAKESH DHINGRA (Advocate) Ch.No 422-A, New Lawyers' Chambers Supreme Court of India, N.Delhi-110201

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that share certificate No. 374070 with Dist. No.: 579556998 to 579558149 for 1152 shares under Folio No. 70271419 in name of Promila Sarma jointly with Dhiraj Sarma issued by Larsen & Toubro Ltd. having regd. off. at L&T House, Ballard Estate, Mumbai-400001 had been lost. Any person(s) has/have claim on said shares should lodge such claim with Company at its regd. off. within 15 days from the date of this notice, after which Company will proceed to issue Duplicate Share Cert. without further intimation.
DHIRAJ SARNA



Reimagining a healthier planet!

PI Industries Limited

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total income from Operations	18,763	15,590	15,204	64,293	19,573	16,151	15,673	66,510
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,615	3,283	3,024	14,217	4,454	3,325	3,140	14,443
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,615	3,283	3,024	14,217	4,454	3,325	3,140	14,443
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,953	2,794	2,521	12,114	3,829	2,806	2,624	12,295
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,255	2,925	2,194	11,718	4,109	2,948	2,297	11,911
6.	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 1/- each (Previous Year ₹ 1/- each))	152	152	152	152	152	152	152	152
7.	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous accounting year				70,816				71,833
8.	Earning per Share (in ₹) (for continuing and discontinued operations)*								
	1. Basic (Rs.)	26.06	18.41	16.62	79.84	25.24	18.49	17.30	81.06
	2. Diluted (Rs.)	26.06	18.41	16.62	79.84	25.24	18.50	17.29	81.04

Notes
1. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 09, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and the Company's website (www.piindustries.com).
3. The Consolidated financial results include the results of the following entities namely, Parent Company a) PI Industries Limited; Subsidiaries (including step down subsidiaries): b) PILL Finance and Investments Limited c) PI Life Science Research Limited d) PI Japan Co. Limited e) Jivagro Limited f) PI BIOFERMA Private Limited g) PI FERMACHEM Private Limited h) PI Health Sciences Limited i) Theracem Research Medialab (India) Private Limited j) Solis Pharmachem Private Limited k) PI Health Sciences USA, LLC l) PI Health Sciences Netherlands BV m) Archimica S.p.A Italy; Controlled trust: n) PII ESOP Trust; o) PI Kumial Private Limited (Joint Venture) p) Solinnos Agro Sciences Private Limited (Associate).

Place: Mumbai For PI Industries Limited
Date: August 9, 2023
Regd. Office: Udaisagar Road, Udaipur - 313001 (Raj)
Phone: 0294 6651100 Fax: 0294 2491946
CIN: L2421RJ1946PLC000469
sd/-
Mayank Singhal
Vice Chairman & Managing Director
DIN : 00006651

Punjab & Sind Bank
H.O. Law & Recovery Department
Corporate Office, 1st Floor, Block-3, NBCC Office Block, East Kidwai Nagar, Delhi-110023, E-mail: ho.l@psb.co.in

Public Notice
Punjab & Sind Bank invites Expression of Interest (EOI) from all the eligible participants as per applicable regulations issued by Reserve Bank of India/ regulators for transfer of stressed loan exposures of 2 accounts with aggregate Book Outstanding of Rs.156.11 Cr through auction under Swiss Challenge method on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and "Without any recourse" basis.
All interested eligible participants are requested to submit their willingness to participate in the bidding process by way of an "Expression of interest" and after execution of "Non-disclosure Agreement", if not already executed (as per the timelines mentioned in web-notice) by contacting on e-mail id: sbhush.chand@psb.co.in. Please visit Bank's website or click on the link <https://punjabandsindbank.co.in/content/arc> for further details (web notice).
Please note that Bank reserves the right not to go ahead with the proposed transfer process and also modify schedule dates mentioned in web notice, any terms & conditions etc. at any stage without assigning any reasons by uploading the corrigendum on Bank's website. The decision of the Bank shall be final and binding.

Place: New Delhi, Date: 11.08.2023
Issued by General Manager (L & R)

Punjab National Bank
SHARE DEPARTMENT, BOARD & CO-ORDINATION DIVISION
PLOT No. 4, DWARKA SECTOR-10, NEW DELHI-110075
Email id: hosd@pnb.co.in, Tel # 011-28044857

Public Notice
Notice is hereby given that Share Certificate of the Bank mentioned below has been reported lost/misplaced/stolen and the registered holder thereof / claimant thereto has requested for issue of duplicate share certificate:

Sr. No.	Name of Shareholder	Folio No.	Share Certificate No.	Distinctive No. of Shares	No. of Shares
1	S S Dahiya	1113588	017523	6738476095-6738476209	115

In case any person has any claim in respect of the said shares/any objection(s) for the issuance of duplicate certificate in favour of the above stated shareholder/ claimant, he/she/they should lodge their claim or objection within 15 days of the date of publication of this Notice. If within 15 days from the date hereof no claim is received by the Bank in respect of the said certificate, duplicate share certificate/letter of confirmation will be issued. The public is hereby cautioned against dealing in any way with the above mentioned certificate(s).

For Punjab National Bank
Date: 10.08.2023
Place: New Delhi
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Container Corporation of India Ltd.
Regd. Office & Investors Relation Centre:
CONCOR Bhawan, C-3,
Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi - 110076.
CIN : L63011DL1988GOI030915, e-mail : investorrelations@concorindia.com,
Tel. Nos. : 41673093-96, 41222500/600/700 website : <http://www.concorindia.co.in>

NOTICE OF RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND FOR FY 2023-24
Notice is hereby given that 19th August, 2023 (Saturday) has been fixed as the Record Date for the purpose of determining the entitlement of members to Interim Dividend @40% (Rs. 2/- per share on equity share of Rs.5/- each), declared by the Board in its meeting held on 10.08.2023 for the financial year 2023-24.
Further, Interim dividend will be paid: (i) to those Members whose names will appear in the Register of Members of the Company, after giving effect to all valid Share Transfers in physical form lodged with the Company and its Registrar on or before 19th August, 2023; or (ii) in respect of Shares held in electronic form, to those "deemed members" whose names appear on the Statements of beneficial ownership furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), at the end of business hours on 19th August, 2023.
In order to avail the facility of payment of dividend through Electronic Clearing Service (ECS), members of the Company, holding their shares in Demat mode are requested to submit the duly filled in ECS mandate form to their Depository Participant and those holding physical shares to Company's Share Transfer Agent and Registrar: M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., BEETAL HOUSE, 3rd Floor, Reg. Madangri, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062. ECS instructions once furnished by the member will supersede all his/her previous bank mandates/details. ECS mandate form is available on Company's website: www.concorindia.co.in.
For Container Corporation of India Ltd.
sd/-
(Harish Chandra)
Date: 10.08.2023
ED (Finance) & Company Secretary

IRCON INTERNATIONAL LTD.
(A Govt. of India Undertaking)
Regd. Office : C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017, INDIA
Tel. No. : +91-11-26530266 Fax: +91-11-26554900, Web: www.ircon.org, E-mail: investors@ircon.org, CIN : L45203DL1976GOI0008171

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 47TH ANNUAL GENERAL MEETING
1. Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Tuesday, the 12th September, 2023 at 12:30 P.M. through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM")**, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular dated 28th December, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular dated 5th January, 2023 (collectively refer to as "Circulars") to transact the businesses set forth in the Notice of the Meeting.
2. In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Members may note that the Notice of Meeting and Annual Report will be available on the Company's website in the Investors section at www.ircon.org and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice will also be available at website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only.
3. Manner of registering/updating email addresses:
(a) Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or by mail to rita@alankit.com.
(b) Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the depositories participants may procure user id and password in the manner as set out below:
(i) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to rita@alankit.com.
(ii) In case of shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to rita@alankit.com. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, please refer to the login method explained in the notice of AGM.
(c) Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. Manner of casting vote(s) through Remote e-voting-e-voting at AGM:
(a) The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("remote e-voting") provided by NSDL. Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email addresses in their demat accounts in order to access e-voting facility.
(b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and those Members, who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM.
(c) The detailed procedure for remote e-voting and voting at AGM will be provided in the notice of AGM.
5. Manner of registering mandate for receiving dividend:
(a) Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have updated their bank account details. Dividend warrants / demand drafts will be dispatched to the registered address of the shareholders who have not updated their bank account details.
(b) Shareholders who hold shares in electronic form and have not opted for Electronic Clearing System (ECS) facility earlier or not updated their bank account are requested to update the bank account with their Depository Participant(s) (DP) to avail the ECS facility. Shareholders who hold shares in physical form and have not opted for ECS facility earlier may send the Form ISR-1 along with the cancel cheque and PAN card to the RTA of the Company (Alankit).
6. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions to register/update email addresses, joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM and Dividend related information.
For IRCON International Limited
sd/-
Ritu Arora
Place: New Delhi, Date: 10th August, 2023
Company Secretary & Compliance Officer

SOMANY ZAMEEN SE JUDEY
Tiles | Bathware

SOMANY CERAMICS LIMITED
(Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West Bengal - 700001, CIN: L40200WB1968PLC224116)
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2023

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	57,905	67,265	54,441	244,270	58,453	67,922	55,913	247,851
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,483	3,693	3,238	12,289	2,503	3,419	2,626	9,504
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,146	3,693	3,238	12,192	1,841	3,419	2,626	9,286
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,339	2,671	2,413	9,009	1,257	2,440	1,936	6,692
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	2,339	2,668	2,413	8,933	1,257	2,443	1,936	6,635
Equity Share Capital	849	849	849	849	849	849	849	849
Reserves (excluding Revaluation Reserve)				77,471				77,848
Earning per share								
Basic (Face Value of Rs. 2/- each) (before/after Extraordinary item)-in Rs.	5.51	6.29	5.68	21.21	3.43	5.73	4.84	16.83
Diluted (Face Value of Rs. 2/- each) (before/after Extraordinary item)-in Rs.	5.50	6.29	5.68	21.21	3.42	5.73	4.84	16.83

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on Company's website (<http://www.somanyceramics.com>) and the Stock Exchange websites of BSE (<http://bseindia.com>) and NSE (<http://nseindia.com>).
2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Date: August 10, 2023
Place: Noida
For SOMANY CERAMICS LIMITED
SHREEKANT SOMANY
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN 00021423

